



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 817 राँची, सोमवार

13 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

31 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-514/2014-1177 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री पारसनाथ यादव, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-632/03, गृह जिला-सहरसा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में दायित्व का निर्वहन नहीं करने, रोकड़ पंजी का विधिवत संधारण नहीं करने, निर्गत चेकों का चेक रजिस्टर, कैशबुक में गलत मंशा से संधारण नहीं करने एवं गंभीर विभागीय अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-499/स्था०, दिनांक 11 सितम्बर, 2014 से प्राप्त प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री यादव के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार, एतद् द्वारा श्री यादव को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री यादव द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनिल कुमार, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PARASH NATH YADAV BHR/BAS/2823	श्री पारसनाथ यादव, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-632/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007
